

क्या आपको स्कूल में सहायता या परीक्षा व्यवस्थाएँ मिलती हैं और क्या आपको संदेह है कि आप इन्हें Uni या TAFE में कैसे प्राप्त करेंगे? या आप काम के दौरान समझौते कैसे करेंगे?



✱ दुष्चिन्ता विकार ✱ गठिया ✱ अस्थमा ✱ एस्पेर्जर्स ✱ ध्यानाभाव विकार (अटेंशन डेफिसिट डिस्ऑर्डर) ✱ बाइपोलर ✱ कैंसर ✱ प्रमस्तिष्क पक्षाघात (सेरब्रल पॉल्ज़ी) ✱ जीर्ण थकान लक्षण (क्रोनिक फैटिग सिन्ड्रोम) ✱ क्रोन रोग ✱ सिस्टिक फाइब्रोसिस ✱ अवसाद ✱ मधुमेह ✱ डिस्लेक्सिया ✱ डिस्प्रोफिया ✱ मिरगी ✱ श्रवण न्यूनता (कम सुनाई देना) ✱ लर्निंग इम्पेयरमेंट (सीखने की विकलांगता) ✱ गतिशीलता में कठिनाई (मोबिलिटी इम्पेयरमेंट) ✱ मल्टीपल क्लेरोसिस ✱ स्कीज़ोफ्रेनिया ✱ रात्रि संवेदनशीलता (स्कोटोपिक सेंसिटिविटी) ✱ स्पाइना बिफिडा ✱ दृष्टि दोष

क्या आपको अपनी विकलांगता या चिकित्सा स्थिति के कारण स्कूल में अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं?

यदि ऐसा है, तो आपको स्कूल के बाद भी समझौते करने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि आप स्वयं को विकलांग नहीं समझते हों, लेकिन विकलांगता भेदभाव अधिनियम में इसकी परिभाषा विस्तृत है और इसमें डिस्लेक्सिया, चिकित्सा स्थितियाँ और मानसिक रोग शामिल हैं।

## TAFE में

- विकलांगता शिक्षक सलाहकार के साथ गोपनीय रूप से बात करें:
- [www.tafensw.edu.au/services/disability](http://www.tafensw.edu.au/services/disability)

## University में

- भावी छात्रों के साथ नियोजित भेंट के लिए विकलांगता सलाहकार उपलब्ध हैं: [www.adcet.edu.au/students-with-disability/current-students/disability-services-university/](http://www.adcet.edu.au/students-with-disability/current-students/disability-services-university/)
- Get Ready for Uni वेबसाइट देखें: [www.westernsydney.edu.au/ndco/getready](http://www.westernsydney.edu.au/ndco/getready)

## काम पर

- आप कार्यस्थल पर समायोजनों के हकदार हो सकते हैं, जैसे सुविधाजनक कार्यसमय या उपकरण: [www.jobaccess.gov.au](http://www.jobaccess.gov.au)
- 12 वर्ष के अंतिम 6 महीनों में, आप विकलांगता रोजगार सेवा (DES) में पंजीकरण करवा सकते हैं। अपनी पात्रता जाँचने के लिए DES प्रदाता से संपर्क करें: <http://jobsearch.gov.au/ServiceProviders/Search>

और अधिक जानकारी के लिए:

- स्कूल में आप स्कूल सलाहकारों, संक्रमण शिक्षकों और कैरियर सलाहकारों से मदद ले सकते हैं: उनसे इस बारे में अधिक से अधिक प्रश्न पूछें कि स्कूल के बाद क्या उपलब्ध है।
- अध्ययन या काम के लिए तैयार हों: [www.westernsydney.edu.au/ndco](http://www.westernsydney.edu.au/ndco)

और अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय राष्ट्रीय विकलांगता समन्वय अधिकारी (NDCO) से बात करें। NDCO कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया-व्यापी सरकार द्वारा पोषित कार्यक्रम है, जो पोस्ट-स्कूल प्रशिक्षण, शिक्षा, और बाद में रोजगार में विकलांग लोगों की मदद करता है।

अपना स्थानीय NDCO खोजने के लिए: [www.education.gov.au/ndcoprogramme](http://www.education.gov.au/ndcoprogramme)